

संख्या: 2817 / VII-1/2018 / 215 ख/14

प्रेषक,
राजेन्द्र सिंह पतियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 05 दिसम्बर, 2018

विषय: श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, नियर मयूर होटल, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद बागेश्वर के ग्राम चौबट्टा ईजा में 20.44 है० क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे का हस्तान्तरण उनकी पत्नी श्रीमती जतिन्दर कौर के पक्ष में किये जाने के संबंध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1792/मुख०/25/पिथौ०/भू०खनि०ई०/2010-11, दिनांक 1 नवम्बर, 2018 के साथ संलग्न अनुपूरक खनन पट्टा विलेख को निष्पादित कर मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त निष्पादित अनुपूरक खनन पट्टा विलेख के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विलेख की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

संख्या: 2817 (1)/VII-1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. श्रीमती जतिन्दर कौर पत्नी स्व० श्री गुरदीप सिंह, निकट मयूर होटल, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अर्पण

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव